

वेटलैंड सर्टि प्रमाणन

स्रोत: पी. आई. बी.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने हाल ही में **वेटलैंड सर्टि प्रमाणन (Wetland City Accreditation- WCA)** के लिये भारत से तीन शहरों के लिये नामांकन प्रस्तुत किये हैं।

- नामांकित शहरों में **इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), और उदयपुर (राजस्थान)** शामिल हैं।
- MoEF&CC द्वारा चल रही **अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों** के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए WCA लक्ष्यों के अनुरूप है।

नोट:

- अमृत धरोहर, 2023-24 बजट घोषणा का हिस्सा, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर साइटों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देता है।

वेटलैंड सर्टि प्रमाणन (WCA) क्या है?

■ **परिचय:**

- WCA एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, जिसे **रामसर कन्वेंशन** द्वारा **कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों (Conference of the Contracting Parties- COP) 12, 2015** के सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था, जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमिकी सुरक्षा हेतु असाधारण कदम उठाए हैं।
- इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं **पेरी/ परधीय-शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके उपयोग को बढ़ावा** देना है, साथ ही स्थानीय आबादी के लिये स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभ अर्जित करना भी है।

■ **महत्त्व:**

- यह शहरों को अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स जैसे मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- इसका उद्देश्य अपने प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमिको महत्त्व देने वाले **शहरों के लिये अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त** करना है।
- WCA 6 वर्षों के लिये मान्य होता है।

WCA हेतु नामांकित शहरों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

■ **इंदौर:**

- होलकर राजवंश द्वारा स्थापित, **इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर** है तथा इसे स्वच्छता एवं शहरी पर्यावरण के लिये भारत के स्मार्ट सर्टि, 2023 से सम्मानित किया गया है।
 - शहर में स्थित एक **रामसर साइट, सरिपुर झील**, जिसे **जलीय पक्षी समागम के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल** के रूप में मान्यता दी गई है तथा इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
 - शहर में 200 से अधिक वेटलैंड मित्र (Wetland Mitras) सक्रिय रूप से पक्षी संरक्षण एवं **सारस करेन** की सुरक्षा के लिये जागरूकता बढ़ाने में पर्यासरत हैं।

■ **भोपाल:**

- भोपाल **भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक** है जिसने अपने शहर विकास योजना 2031 के मसौदे में आर्द्रभूमिके समीप संरक्षण क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है।
- इस शहर में स्थित **भोज वेटलैंड (रामसर साइट)** शहर की जीवन रेखा के सामान है जहाँ विश्व स्तरीय वेटलैंड व्याख्या केंद्र स्थापित है जिसका नाम जल तरंग है।

◦ इसके अतिरिक्त भोपाल नगर नगिम के समीप एक समरपति **झील संरक्षण केंद्र** भी मौजूद है ।

■ **उदयपुर:**

◦ इस शहर के समीप मौजूद **पाँच प्रमुख आर्द्रभूमियाँ, पछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एवं दूध तलाई** हैं ।

- ये आर्द्रभूमियाँ शहर की संस्कृति व पहचान का एक अभिन्न अंग हैं जो **शहर के माइक्रोकलाइमेट** को बनाए रखने में मदद करती हैं और साथ ही खराब **मौसम संबंधी घटनाओं से सुरक्षा** प्रदान करती हैं ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. यदि अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के एक आर्द्रभूमि को 'मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड' के अंतर्गत लाया जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? (2014)

(A) मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के पारस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है ।

(B) जसि देश में आर्द्रभूमि स्थिति है उसे आर्द्रभूमि के किनारे से पाँच किलोमीटर के भीतर कसि भी मानवीय गतिविधि को प्रतर्बिधति करने के लयि एक कानून बनाना चाहयि ।

(C) आर्द्रभूमि का अस्तत्ति इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परंपराओं पर नरिभर करता है और इसलयि वहाँ की सांस्कृतिक वविधिता को नष्ट नहीं कयि जाना चाहयि ।

(D) इसे 'वशि्व वरिसत स्थल' का दर्जा दयि गया है ।

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- मॉन्ट्रो रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमि की सूची में वेटलैंड साइटों का एक रजिस्टर है जहाँ तकनीकी वकिस, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप पारस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं अथवा होने की संभावना है । इसे रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा गया है ।
- आर्द्रभूमि अभिसिमय, जसि रामसर अभिसिमय कहा जाता है, एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण व उचति उपयोग के लयि रूपरेखा प्रदान करती है । यह अभिसिमय वर्ष 1971 में ईरानी शहर रामसर में अंगीकृत कयि गया तथा वर्ष 1975 में क्रयिान्वति हुआ ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wetland-city-accreditation>